

| | |
|---|--|
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051 | बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001 |
|---|--|

विषय: सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत सूचना।

महोदय/महोदया

कंपनी द्वारा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत दिनांक 11 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई थी:

“पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा आज दिनांक 11 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 11 दिसंबर, 2018 के कार्यालय-ज्ञापन का नोट लिया गया, जिसके साथ दिनांक 06 दिसंबर, 2018 की पीआईबी विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न की गई है। यह विज्ञप्ति कैबिनेट के निर्णय के संबंध में है, जिसके द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी लिमिटेड) की कुल प्रदत्त इक्विटी में भारत सरकार की मौजूदा 52.63% शेयरधारिता की रणनीतिक बिक्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को करने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया गया है।”

उक्त घोषणा के बाद, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कुछ क्रेडिट कार्रवाइयां की गई हैं। संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार हैं:

1. केयर द्वारा इस संबंध में आगे की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा पीएफसी एवं आरईसी के क्रेडिट और वित्तीय प्रोफाइल पर पड़े किसी भी प्रभाव का आकलन किया जाता रहेगा। (प्रेस-विज्ञप्ति की प्रतिलिपि अनुलग्नक-I में संलग्न है)
2. क्रिसिल द्वारा आगे की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा इसके पश्चात आवश्यकता पर आधारित उचित रेटिंग कार्रवाई की जाएगी। (बुलेटिन की प्रतिलिपि अनुलग्नक-II में संलग्न है)
3. इकरा द्वारा उत्पन्न प्रभावों के आधार पर रेटिंग की गई है। (रैशनैल की प्रतिलिपि अनुलग्नक-III में संलग्न है)
4. आरईसी लिमिटेड के अधिग्रहण पर एस एंड पी द्वारा क्रेडिट वाच नेगेटिव पर 'बीबीबी-' रेटिंग दी गई है। (रैशनैल की प्रतिलिपि अनुलग्नक-IV में संलग्न है)
5. मूडीज द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की डाउनग्रेड के लिए समीक्षा की गई। (प्रेस-विज्ञप्ति की प्रतिलिपि अनुलग्नक-V में संलग्न है)

सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)

कंपनी सचिव

mb@pfcindia.com